

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 262 ]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 1 जुलाई 2014—आषाढ़ 10, शक 1936

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जून 2014

क्र. एफ-4-4-2013-54-2.—वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 13(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, वक्फ अधिनियम, 1995 के निहित प्रावधान अनुसार, राज्य शासन द्वारा नियुक्त सदस्यों में से निर्वाचित किये गये श्री शौकत मोहम्मद खान को मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जी. एस. खैरवार, उपसचिव.